

दिनांक: 2 अक्टूबर 2021

विषय: संजौली महाविद्यालय के एनएसएस सवायमसेवियों ने गांधी जयंती के अवसर पर स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत के दूसरे दिन जिला शिमला में विभिन्न स्थानों पर जाकर की सफाई।

संजौली महाविद्यालय की एनएसएस इकाई ने आज शिमला के विभिन्न स्थानों पर जाकर प्लास्टिक के कचरे को इकट्ठा किया। कल यानी एक अक्टूबर से एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है जोकि 1 से 31 अक्टूबर तक चलेगी। यह प्रतियोगिता जिला स्तर पर आयोजित की गई है। जिसमें की सभी जिलों की एनएसएस इकाइयों ने भाग लिया है। इस प्रतियोगिता में सभी इकाइयों को पूरा महीना भर प्लास्टिक के कचरे को इकट्ठा करना होगा और अंतिम दिन यानी कि 31 अक्टूबर को यह प्लास्टिक इकट्ठा किया जाएगा और जिस इकाई द्वारा सबसे अधिक प्लास्टिक इकट्ठा किया गया होगा उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा।

संजौली महाविद्यालय की एनएसएस इकाई ने एक प्रतियोगिता महाविद्यालय के स्तर पर भी आयोजित करवाई है। जिसमें कि सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले सवायमसेवियों को महीने के अंतिम दिन पुरस्कारों से पुरस्कृत किया जाएगा।

इसी प्रतियोगिता के चलते आज संजौली महाविद्यालय के स्वयंसेवी शिमला के विकासनगर, खलिनी, आईएसवीटी, संजौली आदि स्थानों पर जाकर प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा किया। जिसमें की सभी सवायमसेवियों ने खूब मन लगाकर, लगन व कर्तव्य निष्ठा से अपनी सेवाएं दी।

सवायमसेवियों के कार्य व इस स्वच्छ भारत अभियान को सफल करने हेतु महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ चंद्रभान मेहता जी ने बहुत शुभकामनाएं और अपना आशीर्वाद प्रदान किया। एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी डॉ मीनाक्षी शर्मा और डॉ विकास नाथन जी के कार्यों व जिम्मेदारियों का पूर्ण रूप से सदैव पालन करने और सवायमसेवियों का मार्गदर्शन करने पर बड़ी सराहना की, कार्यक्रम अधिकारियों ने सभी सवायमसेवियों के जज़्बे की खूब तारीफ की साथ ही उनके कार्यों को सराहा। सदैव हर कार्यों में अपनी पूरी सेवाएं देने वाले सवायमसेवियों को इसी तरह जिंदगी में आगे बढ़कर कुछ बड़ा कर दिखाने की प्रेरणा दी।





